

तात्त्विका विभागणी

प्रथमवर्ष काला - मराठी

पाइ. यश प्रकार + कादंबरी य कथा

द्वितीयसत्र - पाच कथाकार - संपादक डि.स. खोडेकर,
कॉन्टेन्टल प्रकाशन, पुणे).

घटक	तात्त्विका
अ.] अध्ययन अध्याग्नाची उद्दिद्दिष्टये.	१०
१.) कथा म्हणे काय ते सगजावून घेणे।	०१.
२.) कादंबरी, नाटक इ. गद वाइ. मध प्रकारापेक्षा कथेये केंगळेण कोणते ते सम्भासून घेणे।	०२
३.) कथा वाइ. मध प्रकाराये पिंडित घटक - कथानक, व्यक्तिचित्रण, पारंभ-प्रेषट, प्रसंगवर्जन, संघर्ष, भाषावैली इ. घटकांची माहिती करून घेणे।	०३
४.) कथेये प्रमुख प्रकार - स्वरूप य वैशिष्ट्ये समजून घेणे।	०४
५.) मराठी कथेतील प्रमुख स्थित्येतरे सगजावून घेणे।	०५
ब.] पाच कथाकार घटक विश्लेषण -	३०
१.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथांच्या आशय व मांडणी.	०५
२.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथांमधील व्यक्तिचित्रे	०५
३.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथांतील प्रसंगवर्जने	०५
४.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथांमधील संघर्ष	०५
५.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथाहारांच्या कथेयी वैशिष्ट्ये.	०५
६.) पाच कथाकार कथा संग्रहातील कथांतील भाषावैली	०५

एकूण १०+३० = ४०

६

तात्त्विका विभागाची

प्रथमदर्थ कला - मराठी [जुलै, १९९७ पासून]

वाइ.स्य प्रकार - कादंबरी व कथा

प्रथमसत्र - बनगरवाडी - व्यंकटेश मार्डुकर, मौख प्रकाश सुणे

पटक	तात्त्विका
अ) अध्ययन अध्यापनाची उत्तिदध्टे	१२
१) कादंबरी म्हणॆ लाय ते समाजावून घेणे	०१
२) कथा, झाटक इ.गड वाइ.स्य, प्रकारापेक्षा कादंबरीचे केगळेण कोणी ते गायत्रावून घेणे	०३
३) कादंबरी या वाइ.स्य इकाराचे विविध घटक कृत्यानं, व्यक्तिचित्रण, प्रत्यक्षर्थां, संघर्ष, निवेदन, पद्धती, आरावरण निर्मिती, आषाढैली इ. घटकांची प्राहृती करून घेणे	०५
४) कादंबरीचे प्रमुख प्रकार - स्वरूप व वैषिष्ट्ये समाजावून घेणे	०२
५) मराठी कादंबरीतील स्थित्यांतरे समाजावून घेणे	०२
ब) "बनगरवाडी" घटक किंवितः	२८
१) बनगरवाडी कादंबरीचा आशय व मार्डुणी.	०५
२) बनगरवाडी कादंबरीतील व्याक्तिरेखा.	०४
३) बनगरवाडी कादंबरीतील व्यक्तिगती.	०५
४) बनगरवाडी कादंबरीतील संघर्ष.	०४
५) बनगरवाडी कादंबरीतील निवेदन पद्धती व संवाद	०४
६) बनगरवाडी कादंबरीतील आषाढैली	०४
७) बनगरवाडी कादंबरीचे केगळेण	०४

$$\text{सुम्म} २८ + १२ = ४०$$

उपयोजित मराठी

ग्रथमत्रा

घटक

तात्त्विका

अ.] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिदृष्ट्ये

- | | |
|--|----|
| १.] भाषिक कौशल्याचे विविध अविष्कार व संरक्षणामध्ये यांचा परस्पर संबंध तसेजावून घेणे ५ | ०२ |
| २.] कायालियीन व व्याक्ताविक भाषा व्यवङ्कारासाठी आवश्यक लेखन कौशल्याचे संभादन व उपयोजन करणे ५ | ०२ |
| ३.] मराठीचा कायालियीन, व्याक्ताविक काखाजात होणारा वापर, गरज व स्वरूप दिशेणांव॒ माहिती कहन घेणे ५ | ०२ |

ब.] घटक संविश्लेषण-

- | | |
|-------------------|----|
| १.] निर्बंध लेखन | १० |
| २.] सारांश लेखन | ०७ |
| ३.] कल्पनाविस्तार | ०७ |
| ४.] पत्रलेखन | १० |

द्वितीय सत्रा

- | | |
|-------------------------|----|
| ५.] जांतीरात लेखन | १५ |
| ६.] मुलाखत लेखन | १० |
| ७.] लेखन प्रैग्निये घटक | १५ |

संक्षेप - ८०

प्रथमवर्षी वाणिज्य मराठी
प्रेमाच्या गावा जावे [नाटक] - वर्तं कानेटकर

सत्र पहिले

घटक

तातिका

अ.] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्ट्ये-

- | | |
|---|----|
| १.] नाटक या वाढ़ाण्य प्रकाराचे इतर वाढ़ाण्य प्रकारांमुळे
अभिनेत्रे देखलेण समजावून घेणे . | 0३ |
| २.] नाटकाची रचना, तंत्र व प्रकार यांवा स्थूल परिचय
करून घेणे. | 0३ |
| ३.] मराठी नाट्य परंपरेवा स्थूल परिचय करून घेणे | 0३ |
| ४.] नाटकाच्या प्रकारांवा स्थूल परिचय करून घेणे | 0३ |
| ५.] सुखात्स्तिळ या नाटक प्रकाराचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये
समजावून घेणे. | 0३ |

ब.] घटक निश्चेषण

- | | |
|---|----|
| १.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकाचे कथानक | 0६ |
| २.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकातील व्यक्तिचित्रण | 0६ |
| ३.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकातील संघर्ष | 0६ |
| ४.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकातील संकाद | 0४ |
| ५.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकाची भाषाझैती. | 0४ |
| ६.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकातील चिनोद्वाचे स्वरूप | 0४ |
| ७.] प्रेमाच्या गावा जावे नाटकाचा प्रारंभ व फैस्ट | 0४ |

एकूण ४०

सत्र द्वासरे [उपयोजित मराठी]

अ.] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्ट्ये-

- | | |
|---|----|
| १.] भाष्यक कौशल्याचे दिविध अधिकार व संपर्क माध्यमे
यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व उपयोजन करणे | 0२ |
| २.] कायागिनीन व व्यावसायिक भावा व्यवहाराताठी
आवश्यक लेखन कौशल्याचे संबादन व उपयोजन उरणे | 0२ |
| ३.] मराठीचा कापर्फिलीन, व्यावसायिक कामाजात होणारा
वापर, गरज, स्वरूप तिशेणांची माहिती करून घेणे | 0२ |

द) घटक फ्रेशल्स

१) चायन कौशल्य	०८
२) लेजन लौशल्य	०४
३) हॉम रोशल्य	०७
४) तंबादन कौशल्य	०७
५) ब्रेक्विं	०४
६) सारणिक्स	०५
७) ला मिर	०५
८) बाहिरात	०५
९) हेल्पर परिभारेषे उपयोगम	०३

एकुण ४०

$$\text{संकेत} = \text{प्रथमता}-४० + \text{द्वितीयता}-४० = ८०$$

----- XXX -----

॥ अंतरी पेटबू ज्ञानज्योत ॥
उत्तर महाराष्ट्र विधापीठ, जळगांव

प्रथम वर्ष कला → मराठी - [सत्र पटिले]

[जुलै - १९६७ पातुन]

सामान्य स्तर - वाइःभय प्रकार : कादंबरी

नेगलेले पाठ्यपुस्तक → बनगरवाडी - व्यंकटेश भाडगूळकर
[मौज प्रकाशन, पुणे]

अ] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्टपे :-

- १] कादंबरी म्हणजे काय, ते समजावून घेणे.
- २] कथा, नाटक हा गद्य वाइःभय प्रकारापेक्षा कादंबरीचे देणेलेणे ओणते ते समजावून घेणे.
- ३] कादंबरी सांख्य संग्रहील विविध घटक :- कथानक, व्यक्तिचित्रण, प्रतंगृहीन / निवेदन पद्धती, वातावरण निर्णीती, भाषापैली हत्यादि घटकाची माहिती करून घेणे.
- ४] कादंबरीचे प्रश्न प्रकार - स्वस्य व वैशिष्ट्यपे समजावून घेणे.
- ५] मराठी लादंबरीतील स्थित्यतेरे समजावून घेणे.
- ब] "बनगरवाडी" - व्यंकटेश भाडगूळकर [मौज प्रकाशन, पुणे] या लादंबरीच्या संदर्भात घटक विश्लेषण :-

 - १] "बनगरवाडी" कादंबरीचा आधार व मांडणी.
 - २] "बनगरवाडी" कादंबरीतील व्यक्तीरेखा.
 - ३] "बनगरवाडी" कादंबरीतील प्रतंगृहीन.
 - ४] "बनगरवाडी" कादंबरीतील संघर्ष.
 - ५] "बनगरवाडी" कादंबरीतील निवेदन पद्धतीश व संवाद.
 - ६] "बनगरवाडी" कादंबरीची भाषापैली.
 - ७] "बनगरवाडी" कादंबरीचे देणेलेण.

- क] संदर्भ तात्त्व - [प्राध्यापकांताठी]
 - १] मराठी कादंबरी, तंत्र व दिकास - वापट व गोडपोले.
 - २] मराठी कादंबरीचे पटिले शतळ - कुतूसावती देशमाडे [सु. म. संथसंग्रहालय प्रकाशन, सुंवर्दङ्ग.]
 - ३] कादंबरीची रचना - श्री. मा. रुलकर्णी.
 - ४] धार आणि काळ - नरठर दुङ्गेतकर [देशमुख प्रकाशन, पुणे.]
 - ५] कादंबरी - ल. ग. जोग.
 - ६] प्रतिष्ठान - कादंबरी विभांग जानेवारी, १९८१.
 - ७] "युगदाणी" कादंबरी विभांग आवटोंवर, १९९६.
 - ८] मराठी प्रादेशिक कादंबरी - भदन कुलकर्णी.

११ गौतमी नेत्र ज्ञानज्योत ॥
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव

प्रथम श्लोक - मराठी - [सत्र द्वितीय] [जुलै १९९७ पातून]
तात्पात्र स्वर - वाङ्मय प्रकार : कथा
नेमलेले पाठ्यालूक ... पाच कथाकार.
तंपादक - फिल्म खडिकर [कॉन्टेन्टल प्रकाशन, पुणे]

अ) अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्टिये :-

- १) कथा प्रवर्णन, तात्पात्रानुसार.
- २) कांदंपरी, वात्सल्य, वाङ्मय प्रकारायेका कथेये देणवेण कोणते ते तपेजातून घेणे.
- ३) कथा वाङ्मय प्रकारादे विविध घटक :-
कथानक, वाचित्यवश, व्यारंभ, शेवट, प्रत्यंगदर्जन, संघर्ष, भाषावैली इत्यादि घटकांगांचे जाहिती ठस्तु घेणे.
- ४) कथेये प्रमुख प्रकार - स्वरूप वैशिष्ट्ये समजातून घेणे.
- ५) मराठी जातीय प्रदूषक व्यवस्थांतरे समजातून घेणे.

ब) "पाच कथाकार" - तंपादक - फिल्म खडिकर या कथातंग्रहाच्या संदर्भात घटक विश्लेषण :-

- १) "पाच कथाकार" एक ज्ञानज्योतील कथांची आकृत्य व भांडणी.
- २) "पाच कथाकार" एक ज्ञानज्योतील कथांभित्तीत व्यक्तिचित्रे.
- ३) "पाच कथाकार" याचे ज्ञानज्योतील कथांसधील प्रत्यंगदर्जन.
- ४) "पाच कथाकार" या ज्ञानज्योतील कथांसधील संघर्ष.
- ५) "पाच कथाकार" आपातंग्रहातील कथांकारांच्या कथेयी वैशिष्ट्ये.
- ६) "पाच कथाकार" या ज्ञानज्योतील कथांची भाषावैली

क) संदर्भ साहित्य :- [ज्ञानज्यापकांताठी]

- १) मराठी कथा उद्याप आणि विकास - हैदूमती शेवडे.
- २) काढी मराठी कथाकार - म.ना. अदवत्त
- ३) गराठी ग्रामीण कथा - तंपादक - सुर्यकांत खडिकर, झाडास राडगूळकर
- ४) म.ना. पत्रिका - ग्रामीण साहित्य विशेषांक
- ५) ग्रामीण कथा - दात्रीव रुजाठे.

११ अंतरी पेटवू त्रानज्योतता ।
उत्तर मडाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव

प्रथम दर्ज कला - मराठी - [सत्र पहिले]

सामान्य स्तर - उपयोजित मराठी [पर्याप्ती अभ्यासक्रम]

[जून १९२७ पासून]

अ] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्टिशब्दे :-

१] भाषिक घोषण्याचे विविध आविष्कार व संपर्क माध्यमे यांचा परस्पर निवैध तपशाबून देणे व उपयोजन करणे.

२] कार्यालयीन व व्याख्यात्यक्त भाषा व्यवहाराताठी आकृश्यक लेखन तौषुक्याचे भैयादन व उपयोजन करणे.

३] मराठीचा कार्यालयीन व्याख्यात्यक्त कामकाजात होणारा वापर, गरज व स्वरूप क्षेवांची साहिती करून देणे.

ब] घटक विश्लेषण :-

उपयोजित मराठी रचनांचा द स्वरूप.

१] निवैध लेखन - ऐवारिक, वर्णभात्यक, कल्पनात्पद, ललित निवैध इत्यादि.

२] सारांशलेखन - तारांश लेखनाचे प्रयोजन द तंत्र, सारांशलेखनाचे उपयोजन.

३] कल्पनाविस्तार - कल्पनाविस्ताराचे प्रयोजन व तंत्र, कल्पनाविस्ताराचे उपयोजन.

४] पत्रलेखन - स्वरूप, प्रकार व ईलो ऐशिष्टये.

अ] कौटूंबिक व नांत्रजूतिक संदर्भातील पत्रलेखन

ब] कार्यालयीन व व्याख्यात्यक्त पत्रलेखन

[औपचारिक पत्र, स्मरणपत्र, परिपत्रक, प्रमाणपत्र, अधिसूचना, करोडपत्र, निवेदनपत्र, आद्याहनपत्र]

क] जनसंपर्क माध्यमातील पत्रलेखन -

आकाशवाणी, दूरदृशी, दूरतप्रातील वाचकांची पत्रे

॥ अंतरी भेटदूः हानज्योत ॥
उत्तर व्याराष्ट्र विभाषीठ, जलगांव
प्रथा दर्ज ला - मराठी [तत्र दुते]
[उपयोजित मराठी]

घटक विश्लेषण :-

- ५] जाहिरात लेखन - स्वरूप, प्रशार वै पैली दैशिष्टये.
- अ] जाहिरातीचे प्रयोजन
ब] जाहिरातीचे स्वर्यं [भूता वै जावरीहरण]
द] दृत्तपत्र, आजागतीं, दुरदर्शन या प्रतार साध्यमात्ताठी जाहिरात लेखन.
इ] जाहिरातीचे प्रशार [जाव्यात्मक, जास्तकृतिक तंदर्भातील जाहिराती, तंदादात्मक जाहिराती क.]
- ६] मुलाखत लेखन :- स्वरूप ॥ प्रशार.
अ] मुलाखतीचे प्रयोजन वै तत्र
ब] मुलाखतीची घटकांगे
द] मुलाखतीचे प्रशार [निःडळ मुलाखतीच्या आधारे]
- ७] लेखनशीलीचे घटक :-
- अ] वाल्मीकीर व म्हणी
ब] वृत्त :- छंद, गोंधी, अभंग.
मात्रागणदृते - दिंडी, आर्द्धि, पादाङ्गुलक अक्षरगणदृते - शिवरोषी,
भुंगम्पयात, गंदाङ्गात, पृथ्वी, शार्दूलपिण्डीत इ.
द] अलंकार - शब्दालंकार - यात्र, इतेच, अनुप्राप्त, इत्थादि.
अर्थालंकार - उपभा, उत्पेक्षा, रूपक, अवन्हुती, व्यतिरेक, दुष्टाति,
अर्धान्तरन्वात, स्वभापोक्ती, व्याजस्तुती इत्यादि.
- तंदर्भ ताहित्य - [प्राथ्यापलांगाठी]
- १] निवृथ शास्त्र व कला - प्र.न. जोशी [विदर्भ मराठवाडा बुक कॅंपनी]
२] दाइःम्यीन निवृथलेखन, स.सा वै ताथ्ये - रा.ग. जाधव [कॉन्टेनेन्टल प्रकाशन, पुणे]
३] व्यापदारिक मराठी - पुणे विभाषीठ [पुणे] प्रकाशन, पुणे]
४] व्यापदारिक कल्पना - तंपादक वै दि. सुंडी, डॉ. कल्याण डोळे.
५] व्यापदारिक मराठी - श.रा. भविरावादकर.
६] व्यापदारिक मराठी - तंपादक - प्रशाशन परव.
७] व्यापदारिक मराठी - तंपादक - स्नेहवर्धन प्रकाशन.
८] व्यापदारिक मराठी - तंपादक - स्नेहल तावरे [स्नेहवर्धन प्रकाशन, १९९२]
९] उपयोजित मराठी - उत्तर व्याराष्ट्र विभाषीठ प्रकाशन, १९९२]
१०] ज्ञायलियोन पत्रोखन - स्नेहल दोतदार.
१०] समाजभाषी विकास - तंपादक - डॉ. प्रभाकर जोशी
[निराली प्रकाशन, पुणे]

- ११] मुगम मराठी व्याकरण लेखन - या. रा. वाळै, नितीन प्रकाशन पुणे-३०.
१२] निवृथ आणि कल्पना विस्तार - गंगाधर रामचंद्र पाठक, प्रकाशक-बवराम नांगरे,
[३ जुना सदाशिव पेठ, पुणे-२.]
१३] निवृथाची शाळा - आ. ना. पेडणेकर, अभिनव प्रकाशन, मुंबई.
१४] मराठी लेखन दर्शन - दंद्रहात जोशी, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे-३०.

११. अंतरो फेट्यू हानच्योत ॥
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव

प्रथम कवि वाणिज्य - मराठी [तत्र पढिले]
[युले १९९७ पातून]

नेमलेले पाठ्यपुस्तक :-

"प्रेमाच्या गादा जादे" - [नाटक] - घट्टत लानेटकर

पॉर्टफ्युलर प्रकाशन, ३६ सी.ए. प. जागरूक वार्ष, मुंबई - ४०० ०३४.

अ) अध्ययन द अध्यायनाची उद्दिद्धट्ये. :-

- १] नाटक या धार्ढःय प्रकाराचे क्षतर धार्ढःय प्रकारादून असलेले देवघेप्ये समजातून घेणे.
- २] नाटकाची रचना, तंत्र द प्रकार यांचा स्थूल परिचय करून घेणे.
- ३] मराठी नाट्यपरंपरेचा स्थूल परिचय करून घेणे.
- ४] नाटकाच्या प्रकाराच्या स्थूल परिचय करून घेणे.
- ५] तुखात्मका या नाटक प्रकाराचे स्वरूप द वैरिंशिष्टये समजादून घेणे.

ब) घटक विश्लेषण :-

"प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकाच्या संदर्भात.

- १] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकाचे छायानद.
- २] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकातील क्याकिताचित्रण.
- ३] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकातील तंबर्ड.
- ४] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकातील तंडाद.
- ५] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकातील भाजाईली.
- ६] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकातील फिनोकाचे स्वरूप.
- ७] "प्रेमाच्या गादा जादे" नाटकाचा प्रारंभ द शेवट.

संदर्भ ताहित्य :- [प्राध्यायफार्नाऱ्जी]

- १] सुखनाट्याचे ताहित्यस्व - सदा ए-डाकै.
[लोकजाह्यायगृह प्रकाशन, मुंबई.]
- २] आलोचना - कोमेडी फिल्म्स, आर्च, १९७५.
- ३] गो.भा. पवार - "प्रतिष्ठान" नाट्यविशेषक
संप्रित १९७१.

११ अंतरी पेटदूळ झानज्योत ॥
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जवळांव

पृथम र्द्वा वाणिज्य - मराठी

[सत्र दुसरे]

[जून १९६७ फारून]

नेमलेले पाठ्यपुस्तक :- उपयोजित क गराठी
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रकाशन, १९६३]

अ] अध्ययन व अध्यापनाची उद्दिष्टट्ये :-

- १] भाषिक कौशल्याचे विद्युत आविष्कार प संर्फ मार्ग्यमे यांचा परत्यंग तंदृष्ट तजजादून घेणे व उपयोजन करणे.
- २] कार्यालयीन व व्यावसायिक भाषा व्यवहाराताठी आवश्यक लेखन कौशल्याचे संपादन व उपयोजन घरणे.
- ३] मराठीचा कायलियीन, व्यावसायिक कामकाजात होणारा यापर, गरज व स्वरूप विशेषांची माहिती नस्त घेणे.

ब] घटकविश्लेषण :-

- १] वाचनकौशल्य
- २] लेखनकौशल्य
- ३] संचाद कौशल्य
- ४] संपादन कौशल्य
- ५] पत्रोंखन
- ६] सारलेखन
- ७] भाजांतर
- ८] जाहिरात
- ९] क्षेत्रिक पारभाष्ये
- १०] उपयोजन

सामान्यतार वाङ्-यय प्रश्नार - कादंबरी द इथा
[इनगरवाडी व पांच व्याकार]

भुंगी, १९९७ पासून बदललेल्या अध्यात्मव्याच्या वार्षिक परीक्षांची प्रश्नात्रिकेचे स्वरूप व
गुणविभागणी

वेळ - ३ तात

संक्षण गुण - १००

सूचना - १] सर्व प्रश्न आवश्यक आहेत.
२] दोन्ही विभागांची उत्तरे एकाच उत्तरप्रश्निकेत लिहावित.

विभाग शहिला [इनगरवाडी]

प्रश्न १ा	दीर्घीत्तरी एक प्रश्न <u>पिंवा</u>	गुण १८
	दीर्घीत्तरी एक प्रश्न	गुण १८
प्रश्न २ा	पुढीलपैकी कोणत्याही चार प्रश्नांची धोडव्यात उत्तरे लिहा. [६ पैकी ४]	गुण १६
प्रश्न ३ा	पुढीलपैकी कोणत्याही दोन टीपा लिहा. [४ पैकी २]	गुण १६

विभाग दुसरा [पांच व्याकार]

प्रश्न ४ा	दीर्घीत्तरी एक प्रश्न <u>लिंबा</u>	गुण १८
	दीर्घीत्तरी एक प्रश्न	गुण १८
प्रश्न ५ा	पुढीलपैकी कोणत्याही चार प्रश्नांची धोडव्यात उत्तरे लिहा. [६ पैकी ३]	गुण १६
प्रश्न ६ा	पुढीलपैकी कोणत्याही दोन टीपा लिहा. [४ पैकी २]	गुण १६

प्रश्नविधि छना - मराठी

सामान्यतार - उपयोजित मराठी [पर्यायी अस्थात्मक]

देव - ३ तात

रक्षण गुण - १००

प्रश्ना - १] सर्व प्रश्न अचङ्गक आहेत.

२] दोन्ही विभागाची उत्तरे सकाऱ्य उत्तरप्रिकेत लिहावीत.

विभाग-पदिळा

प्रश्न १ा पुढीलैकी कोणत्याही रक्त विषयातर निवृद्धि
[४ पैकी १] गुण-१५

प्रश्न २ा अ] पुढील उत्ता-याचा १/३ तारांश रक्त. गुण १०
ब] पुढीलपैकी कोणत्याही एकाचा कल्याणास्तार करावा
[४ पैकी १] गुण १०

प्रश्न ३ा पुढीलपैकी लोणत्याही नीन प्रश्नांची उत्तरे लिहा
[६ पैकी ३] गुण १५
पत्रांव्या विविध प्रकारातर उपयोजनात्मक प्रश्न

विभाग-हृतरा

प्रश्न ४था अ] हृत्तोपत्रिय जाहिरात लेखावरील उपयोजनात्मक प्रश्न.
ब] आकाशभृणी जाहिरात लेखावरील उपयोजनात्मक प्रश्न.
क] द्विरक्षित जाहिरात लेखावरील उपयोजनात्मक प्रश्न.
गुण १८

प्रश्न ५वा अ] सुलाखन लेड्स प्रकारातर उपयोजनात्मक प्रश्न.
ब] सुलाखन लेड्सतेशीतर एक प्रश्न. गुण १६

प्रश्न ६वा अ] वाक्प्रगार - अर्धी व उपयोजन [४ पैकी २] ४ गुण
ब] म्हणी - अर्धी व उपयोजन [४ पैकी २] ४ गुण
क] चत्ता - लेक्षण व उदाहरण [४ पैकी २] ४ गुण
ड] अलंकार - लेक्षण व उदाहरण [४ पैकी २] ४ गुण

उत्तर महाराष्ट्र विधापीठ, जलगांव।

प्रथम वर्ष कला - अभ्यासक्रम।

[१९६७-६८, १९६८-६९, १९६९-२०००]

* प्रथम वर्ष कला - हिन्दी *

पाठ्य पुस्तक - अक्षर यात्रा - उत्तर महाराष्ट्र विधापीठ द्वारा संपादित।

- १] व्याकरण - निंग, वचन, विभक्ति तथा मातृभाषा के प्रभाव से होनेवाली सामान्य झूमें।
- २] निबंध लेखन।
- ३] सार-लेखन।
- ४] बाती लेखन।
- ५] पारिभाषिक शब्दावली ["अक्षर यात्रा" में दी गई है]
- ६] अनुवाद।

संदर्भ ग्रंथ :-

- १] आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना - चामुदेव नंदन प्रसाद प्रकाशक - भारती अॱन - ११८, विजेकानंद मार्ग, हिंडुबाबाद।
- २] सुषोध हिन्दी व्याकरण एवं रचना - वीरेन्द्रकुमार गुप्ता प्रकाश - रस-यौद्ध एण्ड कंपनी, नई दिल्ली।
- ३] हिन्दी रूप रचना भाग-१ तथा २, प्रधान गंधाद्वक - आचार्य नरेन्द्र शिष्ठेदी प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, हिंडुबाबाद -१।
- ४] प्रयोजन मूलक व्याकरणिक हिन्दी - डॉ. ओमद्विकाश सिंहल प्रकाशक - जगतराज एण्ड संस, गांधीनगर, दिल्ली-३१।

प्रथमश्वी वार्षिक - मराठी

प्रेमाच्या गावा जाते [नाटक] व उपयोजित मराठी

जुलै, १९९७ पासून बदललेल्या अभ्यानसंग्रहाच्या वार्षिक परीक्षांताती प्रश्नपत्रिकेहे स्वरूप व
गुण किमानणी

वेळ-३ तात्स

सहुण गुण - १००

सूचना - १] सर्व प्रश्न आदर्शक आहे.

२] दोन्ही किमानाची उत्तरे एकाच उत्तरपत्रिकित विहावीत.

किमाण-पहिला [प्रेमाच्या गावे-नाटक]

प्रश्न १ता दीर्घीत्तरी सक प्रश्न
किंवा | गुण १८

दीर्घीत्तरी सक प्रश्न | गुण १८

प्रश्न २ता लघूत्तरी प्रश्न
[६ पैकी ४] | गुण १६

प्रश्न ३ता टीपा लिहा
[४ पैकी २] | गुण १६

किमाण-द्वासरा [उपयोजित मराठी]

प्रश्न ४था अ] जाहिरातीवर उपयोजनात्मक प्रश्न | ६ गुण
इ] पत्रेखन उपयोजनात्मक प्रश्न | ६ गुण
क] लेखन कौशल्य | ६ गुण
— १८ गुण

प्रश्न ५था अ] संपाद कौशल्य | ८ गुण
इ] वाचन कौशल्य | ८ गुण | १६ गुण

प्रश्न ६वा अ] संपादन कौशल्य | ४ गुण
इ] सार लेखन | २ गुण
क] आषांगर | ४ गुण
इ] क्षेत्रिय परिभाषेहे उपयोजन — ४ गुण | १६ गुण

————— XXXX —————

* प्रधम वर्ष वाणिज्य - हिन्दी *

पाठ्य पुस्तक - अर्धवर्षीय - उत्तर महाराष्ट्र शिक्षणीय द्वारा संचालित

प्रयोजन मूलक हिन्दी पाठ्यविषय -

[अ] - [१] शाहकी तथा सामान्य पत्रोचार।

[२] छापन।

[३] अर्ध सरकारी पत्र।

[४] हुद्दी से संबंधित आवेदन पत्र।

[५] नौकरी के लिए आवेदन पत्र।

[६] पूछाऊ के पत्र।

[आ] सार लेखन।

[इ] पारिभाषिक शब्दावली।

[ई] व्याकरण और भाषा ज्ञान - लिंग, वचन, कारक, अव्यय और फारक
दिन्ह की गलतियाँ, तत्त्वम शब्दों का भवी प्रयोग।

[उ] निर्बंध-लेखन।

[ऊ] मतौदा लेखन-काव्यलिख आदेश, परिचय, अध्यूषना, तार।

=====

उत्तर महाराष्ट्र दिधापीठ, जलगांव।

पाठ्यक्रम समिति

प्रथम वर्ष कला [जून, १९९८ पालुन]

प्रयोजन मुलक हिन्दी।

[१] प्रयोजनपूलक हिन्दी - स्वरूप एवं उद्देश्य।

[२] मानक हिन्दी वर्तनी -

[क] मानक लिपि - केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा स्वीकृत खण्डाला का परिचय, स्वर, न्दौन, मात्राएँ, अनुस्वार, विसर्ग, चन्द्रबिन्दु, संयुक्त वर्ण, हलचिन्ह इत्यरिधत्वनियों के लिपि विन्ह-नुकां और आँ।

[ख] शब्दों को जोड़कर या अलग-अलग लिखे का नियम- सामानिक शब्द, परसर्ग, पूर्णकालिक क्रियाएँ, क्रियापद और तदायक क्रियाएँ।

[ग] य - व द्वितीयों का प्रयोग।

[घ] विराम चिन्ह - पूर्ण विराम, अत्यविराम, अर्धविराम, प्रश्नचिन्ह, पित्तम्पादिबोध, अवतरण कोष्ठक, लोप चिन्ह, संक्षेप चिन्ह [दिए हुए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग करना]।

[ङ] अंकलेख - देवनागरी अंक, भारतीय अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप।
तंख्यालेख - तंख्याओंका अंकों और शब्दों में लेख, गणितीय चिन्हों का परिचय- धन [+], घण [-], गुणा [x], भ्रान्ति [÷], बराबर [=], गटीबटी [$\frac{a}{b}$ = $b \div a$] दशमलव [.], वर्गमूल [$\sqrt{\text{---}}$], प्रतिशत [%], अनुपात [:], कोष्ठक [()], वर्ग 2 , घन [a^3], पहाड़ी शब्दावली का वर्गमूल [-]।

[ङ] विरोध।

[३] लिंग, वचन, कारक पर आधारित अनुष्ठान वाक्योंका शृण्डीकरण।

[४] पश्चालेख - पश्चालेख का स्वरूप एवं सामान्य परिचय, पश्चों के प्रकार, निमंत्रण पत्र, अभिमंदन पत्र, शोक पत्र, सम्प्रेदन पत्र, आवेदन पत्र, फैसला एवं सुझाव पत्र।

- [५] संक्षेपण - स्वरूप एवं तत्त्व, दिए हुए गदांश का एक तिहाई शब्दों
में सारांश लिखना ।
- [६] निर्धारित - वर्णसात्मक, आत्मकथात्मक, कल्पनात्मक, ललित ।
- [७] अनुवाद - मराठी गदांश अंग्रेजी परिच्छेद का हिन्दी में अनुवाद ।
- [८] विधिध प्रष्टन [कॉर्म] भरना - रेल, आरक्षण, मनीआर्डर, तार, बैंक में
संग्रह जाता करने और निकालने का कार्य, बैंकों का ग्रांग घब्बा
[डिमांड इफट] तथा घब्बा आदि भरना ।
- [९] अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दज्ञली एवं वाक्यज्ञों का हिन्दी अनुवाद एवं
वाक्यों में प्रयोग । [१५० पारिभाषिक शब्द ५० वाक्यांश शब्द सूची
संलग्न है ।]
- [डाक, तार, और रेल से संबंधित सूची]

=====

" अंतरी पेट्रो फ्लानज्योत "
 उत्तर महाराष्ट्र विधायीठ, जवळांच.

प्रथम वर्ष कला [हिन्दी]

अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली का हिंदी अनुवाद

1) A.C. Chair car	- वातानुकूल वातावरण कुर्सी वाहन
2) Allright Signal	- सब ठिक है। सिर्फ तकेत
3) Break journey	- यात्रा भा। दिराम
4) Back dated Ticket	- पिछली तारीख का टिकट
5) Check rail.	- रोल वहरी
6) Compartment	- डिब्बा
7) Destination station	- गंतव्य स्टेशन
8) Dining Car	- भोजन वाहन
9) Expansion of journey	- यात्रा विस्तारण
10) En route	- रास्ते में मार्गस्थ
11) Fish bolt	- जोड़ लाबला
12) Foreign Railway pass	- इतर रेल्वे पास
13) Gear box	- गदारा पदटी
14) Goods shed	- भ्रात गोदाब
15) Head Light	- अगली बड़ी बत्ती
16) Hook end	- पिछली तिरा
17)	- प्रज्ञलन
18) Indicator	- तंत्रितक
19) Junction Box	- संधी पेटी
20) Jack Jaw	- जाङ्गा
21) Knob	- धौंही
22) Level crossing	- समपार
23) Lubricant	- स्नेलक
24) Mail train	- डाक्याडी
25) Missing goods	- गाँव भाल
26) Net load	- गुण्ड भार
27) Night shift	- रात्रीपालि
28) On duty	- कामयर
29) Ped load	- सामान्य ताला
30) Porter	- भारिक

30) Quick Transit Service	- द्रूत परिवहन सेवा
32) Return ticket	- वापसी टिकट
33) Running Sneed	- ड्रॉग्न रेल
34) Sleeper berth	- शैलीवाला
35) Time table	- समय सारणी
36) Unmanned	- अपर्सोनल
37) Vent shaft	- चिमणी
38) Way station	- मार्गीत्य स्टेशन। छोटा स्टेशन
39) Zonal Pass	- क्षेत्रीय पास
40) Parliament	- संसद
41) Constitution	- संविधान
42) Chairman	- सभीषति
43) Speaker	- अध्यक्ष
44) Budget	- बजट आय व्ययब
45) Cabinet	- मंत्रिमंडल
46) Central Government	- केंद्रीय सरकार
47) Centre	- केंद्र
48) Security Officer	- सुरक्षा अधिकारी
49) Member of Parliament	- लंसदा सदस्य
50) Whip	- सचेतक
51) Starred	- तारांजित
52) Address	- वार्ताप्रौढ
53) Secretariat	- अधिकाराल
54) Preamble	- प्रगति / उद्देश्य
55) Constituency	- निवासिन क्षेत्र
56) Gallery	- दीर्घ। वीथी
57) Ordinance	- अधिकादेश
58) Amendment	- संशोधन
59) Bilateral	- द्विपक्षीय
60) Bureau Curacy	- नौकरशाही
61) Elected	- निर्वाचित
62) Cut motion	- कटौती - प्रस्ताव
63) Administration	- नियंत्रण
64) Ambassador	- राष्ट्रद्वारा

65) Embassy	- राजदूतावास
66) Visa	- वीजा / प्रवेश पथ
67) Emergency	- आपात स्थिति
68) Enact	- अधिनियम बनाना
69) Bureau	- ब्यूरो, कार्यालय, केंद्र
70) Bye law	- उचिती
71) Decorum	- प्रिष्ठता शालिनता
72) Interim	- अंतरिम
73) Minutes	- कार्यहृत्त
74) Man date	- अधिकेश
75) Section	- अनुभाग, धारा
76) Post Office	- डाक तार
77) Postage Stamp	- डाक टिकट
78) Postal Address	- डाक पत्ता
79) Post copy	- डाक प्रति
80) Post Master General	- डाक महापद्धक
81) Post Office Saving Bank-	डाक घर बचत बँक
82) Acknowledgement (A.D.)	- प्राप्ति स्वीकृति [प्राप्ति]
83) Money Order	- मनि ऑर्डर
84) National Savings Certificate	- राष्ट्रीय बचत पत्र
85) Savings	- बचत
86) Cumulative Time Deposit-	समाचारित संयोगी जमा
87) Recurring Deposit	- आवर्ती जमा
88) Speed Post	- स्पीड पोस्ट
89) Sender's Address	- भेजने वाले का पत्ता
90) Address	- पालेयाला, प्रेषिणी
91) Registered Letter	- पंजीकृत / पंजीबद्ध पत्र
92) Telegraph Office	- तार घर
93) Inland letter	- अंतर्राज्यीय पत्र
94) Envelope	- लिफाफा
95) Under Certificate of postmark-प्रमाणित	
96) Telephone Exchange	- टेलिफोन केंद्र
97) By return of Post	- लौटती डाक से
98) Express Letter	- द्वितीय पत्र, हुरत पत्र

99) Register	-	रजिस्टर
100) Sender	-	ट्रैम्प
101) Correspondence	-	पत्रछयकार
102) Posts and Telegraphs	-	डाक तार विभाग
103) Directorate General of Posts and Telegraphs.	-	डाक तार का महानिदेशालय
104) Director of Posts and Telephones.	-	डाक तारों निदेशक
105) Office of General Manager- Telephones के महाप्रबंधक का कार्यालय Telephones.	-	
106) Telegrams	-	टेलीग्राफ
107) Telegram Enclair	-	टेलीग्राफ एन्क्लेर
108) Control (Telegraph Office)-	-	टेलीग्राफ लॉगर घर
109) Postal Research Centre	-	डाक अनुसंधान संकाय
110) Senior Superintendent - of Post Office-	-	प्रबंध डाकघर अधीक्षक
111) Posts and Telegraphs Board- डाक व तार बोर्ड	-	
112) Charge	-	इमार
113) Inspector	-	निरीक्षक
114) Welfare Inspector	-	कल्याण निरीक्षक
115) Superintendent	-	अधीक्षक
116) Senior Superintendent -	-	बरिष्ठ अधीक्षक
117) Moficial	-	ग्रामीण
118) Urban	-	नगर
119) Cancellation	-	रद्द करना। खोज करना
120) Postal Bank	-	डाक बँक
121) National Saving Certificate	-	राष्ट्रीय बँगुड़ पत्र
122) Kisan Vikas Patra	-	किसान विकास पत्र
123) Indira Vikas Patra	-	इंदिरा विकास पत्र
124) Interest	-	व्याज। सूट
125) Accured Interest	-	उपचित व्याज
126) Commulative Time Deposit	-	सान्तानिक बोजना
127) Recurring Deposit Scheme	-	आवर्ती जमा बोजना
128) Nominated	-	नामांकन
129) Nominee	-	दाविन
130) Speciman Signature	-	नमूना हस्ताक्षर

131) First Series	- पहली मालिका
132) Second Series	- द्वितीय मालिका
133) Registered Parcel	- पंजीकृत पार्सल
134) Un-registered Parcel	- अपंजीकृत पार्सल
135) Sorting	- स्टोर्टिंग
136) Postman	- डाकिया
137) Delivery	- आवेदन
138) Telegraphist	- तार सेलिक्टर
139) Communication	- संचार, संदेश
140) Mail	- डाक
141) Telephone Directory	- टेलिफोन निदेशिका / डायरेक्टरी
142) Savingsram	- सेविंग्स्रम / बचततार
143) Revenue Stamp	- रसीदी टिकट
144) Head Sorter	- प्रमुख स्टोर्टिंग स्टोर्टिंगकार
145) Telegram, Coded	- कूटभाषा तार
146) Telegram Cypher	- चीन लेख तार
147) Teleprinter	- ट्राइप्रिंटर, टेलिप्रिंटर
148) Director Post Offices	- निदेशक [डाक]
149) Postal Certificate	- डाक प्रमाण पत्र
150) Post Card	- कार्ड

" अंतरी रेट्रॉ ज्ञानज्योत "

उत्तर प्रदेश मिसापीठ, जल्लांचा

प्रथम वर्ष कला ग्रन्थालय मलक हिन्दी

[जून, १९६८ वारून]

Some Expressions and Phrases

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) As per Details below | - नीचे लिखे व्यर्तो के अनुसार |
| 2) As directed | - निर्देशानुसार |
| 3) Bag to State | - नियेदन है |
| 4) By order | - के आदेश से |
| 5) Come into force | - लागू होना |
| 6) Come into operation | - चालू होना |
| 7) Deemed to be | - क्या हो जाएगा |
| 8) During this period | - इस में |
| 9) Early reply is solicited- | श्रीम उत्तर भेजने की प्रार्थना है |
| 10) Eligibility is certified | आवाहन प्रभास्ति की जाती है |
| 11) Further report is awaited | अगली रिपोर्ट की प्रतिक्षा है |
| 12) Furnish details | - डॉर्टर मार्गदर्शन करें |
| 13) Give necessary facilities | - आवश्यक सुविधाएँ दी जाएँ |
| 14) Hard and fast rules | - एक्से नियम |
| 15) Has been dealt with suitable | - लेटु दिए कारबाही की गई है। |
| 16) In reply to | - के उत्तर में |
| 17) In due course | - यथापद्धि |
| 18) Justification for the proposal | - प्रस्ताव का अौचित्य |
| 19) Just below | - ठीक नीचे |
| 20) Kindly acknowledge receipt | - कृपया पाठ्यती दें |
| 21) Keeping in view | - हृष्टि में रखो हृष्टि |
| 22) Lay before | - समझे रखा। क्षमामें रखा |
| 23) Liable to disciplinary action | - अनुवातनात्मक कार्यकारी की जा सकती है |
| 24) May be considered | - धियार किए जाएँ |
| 25) Mentioned above | - उपरीलिखि। उपर्युक्त |
| 26) Note Below (N.B.) | - धियेष ध्यान दीजिए [धि. ध्यान] |
| 27) Necessary action
May be taken | - आवश्यक कारबाही की जाएँ |
| 28) On behalf of | - की ओर से |
| 29) अनुवातनात्मक न वैध | - अप्रतित दैध नहीं है |
| 30) Pros and Cons | - पूर्व विषय / आगा दीजा [पूर्व-विषय] |

Cont... 2 ..

- 31) Put up - प्रस्तुत कियीए। पेश कीजिए
 - 32) Question does not arise - प्रश्न नहीं उठता
 - 33) Quoted reference - संदर्भ वतार
 - 34) Referred to above - उपरीनिश्चिट
 - 35) Remain in force - लागू रहना। प्रत्युत्ता रहना
 - 36) Status quo - यथोच्चर्य स्थिति
 - 37) So far as possible - यथोक्तव्य सम्मद्द
 - 38) This is to certify - इसाधिका किया जाता है
 - 39) Through over sight - नजर छूक जाने से। फूल जाने से
 - 40) Under mentioned - निम्नलिखित
 - 41) Until further orders - अगला आदेश मिलने तक
 - 42) Verified and found correct - सत्यापित किया, सही है
 - 43) With reference to - के संबंध में। के ब्रह्मण में
 - 44) With respects - सादर
 - 45) Yours faithfully - भद्रदीप
 - 46) Your attention is drawn - आपहार ध्यान आक्षित किया जाता है
 - 47) Form of question - प्रश्नों का रूप
 - 48) For public benefit - भार्यजनिल डित के लिए
 - 49) Lapse of time - सन् ब्रीतना
 - 50) Method of disposal - विस्तारण की दीति
-

" अंतरी पेट्टू इनज्योत "

उत्तर भारत प्रदेश विधानसभा, जम्मू कश्मीर

अंक दिग्भाजन

प्रथम वर्षी ची.ए. [हिन्दी]

पाठ्य पुस्तक : अक्षर यात्रा

अंक १००

१] गद्य पाठों पर वाँच में से तीन प्रश्नों के उत्तर	[१५]
२] गद्य पाठों पर वाँच में से तीन प्रश्नों के उत्तर	[१५]
३] तत्त्वदर्शी व्याख्या :-	
गद्य पाठ - दो में से एक	[०५]
पद पाठ - दो में से एक	[०५]
एक वाक्य में उत्तर	[०५]
[गद्य पाठों पर तीन पद पाठों पर दो]	
४] व्याकरण :	
[अ] वाक्य शुद्ध करना [८ वाक्य]	[०८]
[ट] पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद [दस में से आठ]	[०८]
५] [अ] वातर लेखन	[०८]
[आ] अनुवाद [राठी/अर्थों से हिन्दी में]	[०८]
[इ] तार लेखन	[०८]
६] निवन्ध [पाँच विषयों में से एक पर]	[१५]

प्रथम वर्षी ची.ए. [प्रदोषन लूक दिल्ली]

अंक १००

१] [क] लिः पर आधारित वाक्य शुद्ध करना	[१७]
[ख] लिंग-व्यवन-कारा, पर आधारित वाक्य शुद्ध करना	[१५]
२] [क] पारिभाषिक शब्दावली का अनुवाद	[१०]
[ख] वाक्यांशों का अनुवाद	[१०]
३] पत्र लेखन	[०५]
४] सक्षमण	[१०]
५] विस्तरण	[१०]
६] गा.। वारपा का अनुवाद [राठी/अर्थों से]	[१०]
७] निवन्ध	[१५]
	[१५]

पृथ्यम् चर्ष्ण ची. र.

"प्रयोजन सूलक हिंदी" बैकलिंग पाठ्यक्रम संदर्भ ग्रंथ सूची

१. हिंदी उद्भव, विज्ञास और रूप - डॉ. दरदेव शाहरी
२. हिंदी प्रयोग - रा. देव कर्मा
३. हिंदी भाषा का सरल व्याकरण - डॉ. गोलानाथ फ. चारो
४. व्याप्रवाचिक हिंदी और मिथंध एचना - ओमपूर्णा तिंहल, तिलकराज बडेहरा, हरीश उन्डल
५. आवेदन - प्रारूप - विज्ञानारायण चतुर्वेदी
६. प्रयोजन सूलक हिंदी - डॉ. दंगल शाल्टे
७. प्राचीन भालेज और टिप्पणी - प्रा. विराज ए...ए.
८. व्याप्रवाचिक हिंदी भाग-१ और २ - ओमपूर्णा तिंहल, तिलकराज बडेहरा, धर्मचंद्रशार्फ, उत्तापनिषत्तराज चंदेरा
९. राखभाषा हिंदी - डॉ. गोलानाथ तिशारी
१०. हिंदी रुप एचना - आपार्य जयेन्द्र त्रिप्तेदी
११. अभियं व्याप्रवाचिक हिंदी - दहमानंद गुप्त
१२. हिंदी ली-टी और शब्दतोर्ख - हुणे विजानीठ फ़कार्स
१३. देवनागरी विज्ञास परिवर्तन और भानकीकरण कैट्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली
१४. हिंदी वर्तमी और शब्द लेखन कैट्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली
१५. एचना-प्रदीप-राखभाषा प्रचार सभा, पुणे भाग-[१ व २]

—*—*—*—*

संस्कृत अध्यात्मा— युन १२९७ पालून

१] प्रथम दर्श :- ताहित्य [तात्त्विक जी-१]
[तात्त्विक स्तर]

अ] स्वप्नदात्तदत्तर - महान् द्विभागी भाग गुण - ६०

ब] द्विभागितदत्तर - भाग-१ गुण - ३०

क] तंस्कृत ताहित्याची तीक्ष्ण खालील पालि प्राकृत गुण - १०

ग्रंथकाराचा स्थूलमानाने वरिचय गुण - १०

१] हरिभद्र लूरी ५] गुणतामर लूरि

२] आचार्य देवनन्द ५] छात तात्त्वाद्वन

३] राजेश्वर ६] देवनन्द भविष्य

२] द्वितीय दर्श [तात्त्विक स्तर] जी - २

अ] रघुवंश - तर्ग १ ते ३ गुण - ६०

ब] पंचतत्रय - अपरीक्षितारण गुण - ३०

क] तंस्कृत डॉ. गोपाली तीक्ष्ण खालील पालि प्राकृत ग्रंथलौहिता स्थूलमानाने वरिचय

१] कर्पूरवंशजिरो ३] धूतशिखास्त्र

२] द्रव्यतंशुग्रह ५] द्विगुणपाल प्रतिवेद

३] वतुषेष दिपिङ्ग ६] प्राकृत प्रजापा

३] द्वितीय दर्श [दिशेष स्तर] [स्तर - १]

अ] शाक्यभास्त्र विक्की भाग १ द. ३ गुण - ५०

पुणे दिक्षादीप प्रजापा

ब] मनुस्यूती : [तप्तस्त्राधारण] राजधर्म प्रकरण गुण - ५०

द्वितीय दर्श दिशेष स्तर [स्तर - २]

अ] देवान्तरार : देवाधिप यतीन्द्र लृतः तंपूर्ण गुण - ४०

ब] तंशुग्रह डॉ. विजयकृतः प्राज्ञानकादिचार गुण - ४०

क] प्रात्प्राद्याद्विते गुण - २०

३] तृतीय दर्श [शाक्यास्त्र स्तर] [जी - ३]

अ] दिग्गमोर्जीव्य - [महान् द्विभागी भागात] गुण - ६०

जंड १ ते ३ लूदण अस्यात

तंपूर्ण नाटक - हक्का अस्यात

ब] नितीशतज्ज्वर - [मर्तुदर्शी] तंपूर्ण गुण - ४०

तृतीय वर्ष चिकित्सा स्तर [सत - ३]

अ] कक्षुष्टा तुगन्ध

गुण - ५०

पिघाजी पिपापोठ प्रकाशम्

ब] ईशावाङ्गलौपनिषद् तंपूर्ण

गुण - ३०

धैदिक लाइ खाचा इतिहास

गुण - ३०

तृतीय वर्ष चिकित्सा स्तर [सत - ४]

अ] देयाकरण तिथदान्त लौमुदी

गुण - ३०

तंडा य लारक प्रकरण

ब] पार्षेतर तंस्कृत अनुवाद

गुण - १०

ज] तंस्कृत लेखन

गुण - १०

इ] तंस्कृत लंब्यशास्त्राचा इतिहास

गुण - ३०

पिकेब तंदर्भ १] रत्नप्रदाय २] अलैकार तप्रदाय

३] रीती तप्रदाय ४] यक्षोफित तप्रदाय ५] उदानिसप्रदाय

इ] प्रात्यक्षिके

गुण - २०

११ अंतरी पेट्ठू ज्ञानज्योत ॥
उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगलूरु

वी.ए. अर्धागधी - प्राकृत -

प्रथम दर्शन ताहित्य - जी - १.

अ] पांडिल-मंजरी - उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ प्रकाशित
तददात तंयोधनपद ए दंडलारण्यर्थन हें दोन पाठ दर्शन करत

गुण - ६०

ब] प्राकृतगी संलग्न आगी ताहित्य कृतोंचा स्थूलगानासे परिचय

गुण - १०

कालोदात पाण्डिट छोटिल्य अर्धागधी
भृष्मूती भरतसुनी पाणिनी

द्वितीय दर्शन ताहित्य - जी - २

अ] १] अंजगापाण्यंस्युतंतु - [पद्मापरित्र तंधी १८ व १९] गुण - ४५

२] अभ्यधिकार्य - आग्रदेवतारी गुण - ४५

प्रा. रणदिले तंपादक प्रत

ब] लाळा लाळा कृतीचा परिचय -

दशङ्कार चरितम् नैवर्यीय चरितम्
श्रीमद्भागवतम् लाळ्य प्रेषाशा श्रम्भूत्र शांकरभाष्य
आष्टागद्यदरम्

तृतीय दर्शन ताहित्य जी - ३

१] नवक्षय - तोग्रभाचार्य - तंपादक प्रा. रणदिले एव. एत.

गुण - ५०

२] इज्जालग्न - १ ते १४ दण्डा - तंपादक प्रा. रणदिले एव. एत.

गुण - ५०

त्येशल पेपर एत - १

१] वारतापुरोक्खा - दुङ्दुङ्दाचार्य - गुण - ५०

२] प्रत्योक वृद्धदक्षा - तंपादक वी. वो. भगे, तातारा
गुण - ५०

एत - २

१] नावाधाम्माक्षाभी - दीपद्विक्षा गुण - ५०

२] उत्तरांश्चयन्त्रात्र - अध्याय-१, ८, २, १३, १४, २३, २४

तंपादक

गिराजी विद्यापीठ, प्रकाशन

..... २

- Paper S.3- Section-I (A) History of Prakrit literature.
- (a) Outlines of the Agama literature of the svtambaras.
 - (b) Epic : Lilavai
Kumarpalacariya, Gaudayaho,
Revanavaho (Setubandha)
Paumacariyam.
 - (c) Some Prakrit Authors ;
Hemacandra, Devendragani,
Haribhadrasuri, Puspadanta,
Kundakunda.
 - (d) Some Prakrit text ; Samaraicca-khe, Dhurtakhvana,
Kumarpalepratibodha,
Samayasarā, Kārekanda Cariu 45
 - (e) Sattakas.
- (B) Gehasattasai (गहसत्तासै सत्तासा)
except the following gathes :
5,20,22,31,44,55,56,100 - 35

Section-II : Oral

20

Special Paper S.4. Section-I : Prakrit Grammer of Homaçandra 8th Chapter.

- (a) Desi, Tatvasama and Tadkhava 20 words.
- (b) Vowels, initial-medial and final consonants. 10
- (c) Modification in articulation 10
Svarabhakti
Kavalikarana
Varnagama
Varnalopa
Savarinalopa
Varnaviparyaya
Samprasarana
Murdhanyanipata
- (d) Word transformation: From Sanskrit into Prakrit and vice versa. 5
- (e) Characteristics of Magadhi, 10
Ardhamagadhi, Sauraseni,
Maharashtri.
- (f) Translation from Prakrit 8 passages.
- (g) Essay writing in Ardhamagadhi 7
- (h) translation of gathes from siddha - Homa- Sabdanusasanam, 20
gathes on the Sutras- 288 to 367

Section -II : oral

20

॥ अंतरी पेटदूळ हानज्योत ॥

उत्तर भाराष्ट्र पिंडीठ, जबगांव.

वी. स. पालि अभ्यासक्रम जून १९९७ पासुन

सन् दाय. वो. ए.

पालिकृतगांधिलि - पाठ १ ते १८ द १५ ते १४.

सन् दाय. वो. ए.

जनरल पेपर - १

पालिकृतगांधिलि - पाठ २ ते १४ द १८ ते २३.

स्पेशल पेपर - १

निदानलक्ष्य [कुर्गिक्षया]

स्पेशल पेपर - २

धर्मसंपद [कर्म - २, ४, ६, ७, १०, १२, १४, २५, १२, २०, २२, २४, २५]

ठि. दाय. वो. ए.

जनरल पेपर - २

चरिता पिटळ

स्पेशल पेपर - ३

अ] पालि दाइ. जाचा छत्रिहास

ब] पालिगाथी भाषांतर लिंगा निवंधोखन

स्पेशल पेपर - ४

अ] कन्याकुमारी व्याकरण [तंधी, कारक, तमास]

ब] जातक [संशाद्वन रां. श्री. रणदिवे] पाठ १ ते १२